

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255792
SG-DL-E-27072024-255792असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|--|----------------------------|
| सं. 195] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2024/श्रावण 3, 1946 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 117 |
| No. 195] | DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2024/SHRAVANA 3, 1946 | [N. C. T. D. No. 117 |

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIरोजगार निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सं. फा. 7 (236)/रोज0/प्रशा0/2023/6186.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा रोजगार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड" के पद की भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को "स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड" भर्ती नियमावली, 2024, रोजगार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कहा जाए।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :- वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेख बद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियम के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. बचाव :- इन नियमों में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | पद नाम | : | स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) |
| 2. | पदों की संख्या | : | 02*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर |
| 3. | वर्गीकरण | : | सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | : | वेतन मैट्रिक्स का स्तर-2(रूपये 19900-63200/-) |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद | : | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा | : | 18-25*वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप :- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/संक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी। |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | : | अनिवार्य :- 1. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 2. मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। 3. मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए।) 4. मोटरकार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय :- |

| | | |
|-----|--|---|
| | | होम गार्ड/ नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टीप 1 :—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप 2 :— यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। |
| 8. | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। | : लागू नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | : सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | : प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है | : प्रतिनियुक्ति/समावेशन :— (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारी अथवा (ii) कार्यालय जहां रिक्ति है, में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1(रूपये 18000-56900/-) में समूह 'ग' कर्मचारियों में से; जिसके न होने पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1(रूपये 18000-56900/-) में समूह 'ग' कर्मचारियों में से तथा मोटरकार चलाने की सक्षमता का आंकलन करने के लिए वाहन चालन परीक्षा के आधार पर। अथवा (ख) कॉलम संख्या 7 में से यथानिर्धारित निम्नलिखित योग्यता तथा अनुभव रखने वाले। टीप 1 :—प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है; यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। टीप 2:—प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है। | : | समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधानसचिव/सचिव (लो0नि0वि0) रा0रा0क्षे0दि0स0 – अध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष (रोजगार) –सदस्य 3. उप-सचिव (श0वि0) रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य टीप :- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण पर विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है | : | लागू नहीं। |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
अरुण कुमार झा, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd July, 2024

F. No. 7 (236)/Emp/Admn./2023/6186—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification Number G.S.R 840, dated the 13th July, 1959, Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the following Recruitment Rules, regarding the method of recruitment to the post of “Staff Car Driver, Ordinary Grade” in Directorate of Employment, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:- (i) These rules may be called “Staff Car Driver, Ordinary Grade” Recruitment Rules, 2024 Directorate of Employment, Government of National Capital Territory of Delhi.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix:- The number of posts, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule attached thereto.

3. Method of Recruitment, Age limit and other qualifications, etc:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:- No person,

- (a) Who has entered or contracted marriage with the person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax:-Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving:-Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes and other specified category of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|
| Name of the Post | Number of Posts | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection post or non selection post | Age limits for Direct Recruits |
| Staff Car Driver (Ordinary Grade) | 02*(2024) *Subject to variation dependent on Work load | General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial | Level-2 (Rs. 19900 -63200/-) of the pay matrix | Not applicable | Between 18 - 25years* (Relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note-1: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--------------------------------|---|
| Educational and other qualification for direct recruits | Whether Age & Educational Qualification sprescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation , if any | Method of recruitment whether by direct recruitment/promotion/deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
| <p>Essential</p> <p>(i) Pass in 10th Standard.</p> <p>(ii) Possession of a Valid Driving License for Motor Cars.</p> <p>(iii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle).</p> <p>(iv) Experience of Driving a Motor Car for at least three years.</p> <p>Desirable: Three Years service as Home Guard/Civil Volunteers.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note2:The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> | Not applicable | Two years for direct recruits. | Deputation/absorption failing which by Direct Recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|
| In case of recruitment By promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation /absorption to be made | If DPC exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment |
| Deputation/absorption: (a) (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or departments. | Group 'C' DCC (for considering confirmation): 1. Principal Secretary/ Secretary (PWD) GNCT Delhi- Chairman 2. Head of the | Not Applicable |

| | | |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Or</p> <p>(ii) From amongst Group-C employees in Level-1 (18000-56900/-) in pay matrix with three years of regular service in the office where vacancy arises failing which from Group-C employees in Level-1 (18000-56900/-) in pay matrix with three years of regular service in Central Government/ State Government/ Union Territories and on the basis of a driving test to assess the competence to drive Motor Cars and</p> <p>(b) Possessing the following qualifications and experience as prescribed in Column No. 7</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-Cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation /absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> | <p>Department(Employment)– Member</p> <p>3. Dy. Secretary(UD)GNCT of Delhi– Member.</p> <p>Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the</p> <p>Departmental Confirmation Committee.</p> | |
|---|---|--|

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

ARUN KUMAR JHA, Jt. Secy.